

बालभवन बालिका विद्यापीठ लखीसराय

कक्षा – पंचम

दिनांक -29-07-2020

विषय -हिन्दी

विषय शिक्षक -पंकज कुमार

एन, सी, ई, आरटी, पर आधारित

सुप्रभात बच्चों आज लिंग के बारे में अध्ययन करेंगे एवं लिखकर याद करें।

हिन्दी व्याकरण में लिंग के दो भेद होते हैं-

(1)पुल्लिंग

(2)स्त्रीलिंग

(1) **पुल्लिंग** :- जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है, उसे पुल्लिंग कहते हैं।

जैसे-

सजीव- कुत्ता, बालक, खटमल, पिता, राजा, घोड़ा, बन्दर, हंस, बकरा, लड़का इत्यादि।

निर्जीव पदार्थ- मकान, फूल, नाटक, लोहा, चश्मा इत्यादि।

भाव- दुःख, लगाव, इत्यादि।

(2)**स्त्रीलिंग** :- जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं।

जैसे-

सजीव- माता, रानी, घोड़ी, कुतिया, बंदरिया, हंसिनी, लड़की, बकरी,जू।

निर्जीव पदार्थ- सूई, कुर्सी, गर्दन इत्यादि।

भाव- लज्जा, बनावट इत्यादि।

पुल्लिंग की पहचान

(1) कुछ संज्ञाएँ हमेशा पुल्लिंग रहती हैं-

खटमल, भेड़िया, खरगोश, चीता, मच्छर, पक्षी, आदि।

(2)**समूहवाचक संज्ञा**- मण्डल, समाज, दल, समूह, वर्ग आदि।

(3) **भारी और बेडौल वस्तुओं**- जूता, रस्सा, लोटा ,पहाड़ आदि।

(4) **दिनों के नाम**- सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार आदि।

(5) **महीनो के नाम**- फरवरी, मार्च, चैत, वैशाख आदि। (अपवाद- जनवरी, मई, जुलाई-स्त्रीलिंग)

(6) **पर्वतों के नाम**- हिमालय, विन्ध्याचल, सतपुड़ा, आल्प्स, यूराल, कंचनजंगा, एवरेस्ट, फूजीयामा आदि।

(7) **देशों के नाम**- भारत, चीन, इरान, अमेरिका आदि।

(8) नक्षत्रों, व ग्रहों के नाम- सूर्य, चन्द्र, राहू, शनि, आकाश, बृहस्पति, बुध आदि।
(अपवाद- पृथ्वी-स्त्रीलिंग)

(9) धातुओं- सोना, तांबा, पीतल, लोहा, आदि।

(10) वृक्षों, फलो के नाम- अमरुद, केला, शीशम, पीपल, देवदार, चिनार, बरगद, अशोक, पलाश, आम आदि।

(11) अनाजों के नाम- गेहूँ, बाजरा, चना, जौ आदि। (अपवाद- मक्की, ज्वार, अरहर, मूँग-स्त्रीलिंग)

(12) रत्नों के नाम- नीलम, पुखराज, मूँगा, माणिक्य, पन्ना, मोती, हीरा आदि।

(13) फूलों के नाम- गेंदा, मोतिया, कमल, गुलाब आदि।

(14) देशों और नगरों के नाम- दिल्ली, लन्दन, चीन, रूस, भारत आदि।

(15) द्रव पदार्थों के नाम- शरबत, दही, दूध, पानी, तेल, कोयला, पेट्रोल, घी आदि।
(अपवाद- चाय, कॉफी, लस्सी, चटनी- स्त्रीलिंग)